



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 17 नवम्बर, 2020

कार्तिक 26, 1942 शक सम्बत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

संख्या 4 / 763-2020-4-91(हाथरस)-2014

लखनऊ, 17 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-362

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149-94, दिनांक 9 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायतीराज, उ० प्र०, को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी-2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायतीराज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, किंजल सिंह, निदेशक, पंचायतीराज, उ० प्र०, लखनऊ, पंचायतीराज अनुभाग-3, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा0नि0आ0-2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा0नि0आ0-2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2010 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद हाथरस की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या-4/173/2015-4/91(हाथरस)/2014, दिनांक 27 जनवरी, 2015 में विकास खण्ड हाथरस, मुरसान एवं सासनी की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्वारा स्थापित करती हूँ।

सारणी

जनपद-हाथरस

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति			
	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम		ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3		4
1	हाथरस	कलवारी	1 कलवारी		हाथरस	नगर विकास अनुभाग-2, उ० प्र० शासन, की अधिसूचना संख्या 1122/नौ-2-19-66सा-14 दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा ग्राम पंचायत कलवारी नगर पालिका, हाथरस में सम्मिलित।		
2		तरफरा	1 तरफरा			नगर विकास अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, की अधिसूचना संख्या 1122/नौ-2-19-66सा-14 दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा ग्राम पंचायत तरफरा नगर पालिका, हाथरस में सम्मिलित		
3		शहजादपुर	1 शहजादपुर	1		शहजादपुर	1	शहजादपुर
4		तेहरा	1 तेहरा	2		तेहरा	1	तेहरा
							2	तरफरा (गैर आबाद)
							3	गिजरौली (गैर आबाद)
							4	गढी नन्दराम (गैर आबाद)
							5	न० खोडा हजारी (गैर आबाद)
5		कटैलिया	1 कटैलिया	3		कटैलिया	1	कटैलिया
6		गढी परती बनारसी	1 गढी परती बनारसी	4		गढी परती बनारसी	1	गढी परती बनारसी
7		चन्द्रगढी	1 चन्द्रगढी	5		चन्द्रगढी	1	चन्द्रगढी
8		बघना	1 बघना	6		बघना	1	बघना
			2 बूलगढी				2	बूलगढी

1	2	3	4	1	2	3	4
9		गिजरौली	1 गिजरौली			नगर विकास अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन, की अधिसूचना संख्या 1122/नौ-2-19-66सा-14 दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा ग्राम पंचायत गिजरौली व राजस्व गाँव गढी नन्दराम एवं न0 खोडा हजारी नगर पालिका, हाथरस में सम्मिलित ।	
			2 गढी नन्दराम				
			3 न0 खोडा हजारी				
10		परसारा	1 परसारा	7		परसारा	1 परसारा
11		कैमार	1 कैमार	8		कैमार	1 कैमार
12		पैकवाडा	1 पैकवाडा	9		पैकवाडा	1 पैकवाडा
13		कुम्हरई	1 कुम्हरई	10		कुम्हरई	1 कुम्हरई
14		मझोला	1 मझोला	11		मझोला	1 मझोला
15		ककोडी	1 ककोडी	12		ककोडी	1 ककोडी
			2 दरकई				2 दरकई
16		कोका	1 कोका	13		कोका	1 कोका
17		अल्हेपुर चुर्सेन	1 अल्हेपुर चुर्सेन	14		अल्हेपुर चुर्सेन	1 अल्हेपुर चुर्सेन
18		जलालपुर	1 जलालपुर	15		जलालपुर	1 जलालपुर
19		गंगचौली	1 गंगचौली	16		गंगचौली	1 गंगचौली
20		बाघऊ	1 बाघऊ	17		बाघऊ	1 बाघऊ
21		सूरतपुर	1 सूरतपुर	18		सूरतपुर	1 सूरतपुर
			2 अनुरुद्धपुर				2 अनुरुद्धपुर
22		राजपुर	1 राजपुर	19		राजपुर	1 राजपुर
			2 कुरार				2 कुरार
23		न0 इमलिया	1 न0 इमलिया	20		न0 इमलिया	1 न0 इमलिया
24		सिकन्दरपुर	1 सिकन्दरपुर	21		सिकन्दरपुर	1 सिकन्दरपुर
			2 खेड़ा चतुर्भुज				2 खेड़ा चतुर्भुज
25		लाडपुर	1 लाडपुर	22		लाडपुर	1 लाडपुर
26		लाखनू	1 लाखनू	23		लाखनू	1 लाखनू
27		सिथरौली	1 सिथरौली	24		सिथरौली	1 सिथरौली
28		बेरगांव	1 बेरगांव	25		बेरगांव	1 बेरगांव
29		जाफराबाद	1 जाफराबाद	26		जाफराबाद	1 जाफराबाद

1	2	3		4	1	2	3		4
30		गंगोली	1	गंगोली	27		गंगोली	1	गंगोली
31		चिन्तापुर बदन	1	चिन्तापुर बदन	28		चिन्तापुर बदन	1	चिन्तापुर बदन
			2	त्रिलोकपुर				2	त्रिलोकपुर
			3	दतौरा				3	दतौरा
32		रुद्रपुर	1	रुद्रपुर	29		रुद्रपुर	1	रुद्रपुर
33		वीरनगर	1	वीरनगर	30		वीरनगर	1	वीरनगर
34		पुराकलां	1	पुराकलां	31		पुराकलां	1	पुराकलां
35		पुराखुर्द	1	पुराखुर्द	32		पुराखुर्द	1	पुराखुर्द
36		खरवा	1	खरवा	33		खरवा	1	खरवा
			2	गढी खुर्ती				2	गढी खुर्ती
37		ऐंहन	1	ऐंहन	34		ऐंहन	1	ऐंहन
38		गढी वलना	1	गढी वलना	35		गढी वलना	1	गढी वलना
			2	बलना				2	बलना
39		नूरपुर	1	नूरपुर	36		नूरपुर	1	नूरपुर
			2	मेवली				2	मेवली
40		भोपतपुर	1	भोपतपुर	37		भोपतपुर	1	भोपतपुर
			2	विलोखरी				2	विलोखरी
			3	पुवैना				3	पुवैना
41		मिर्जापुर	1	मिर्जापुर	38		मिर्जापुर	1	मिर्जापुर
			2	नहरई				2	नहरई
42		शेरपुर	1	शेरपुर	39		शेरपुर	1	शेरपुर
			2	विधीपुर				2	विधीपुर
43		मुहब्बतपुरा	1	मुहब्बतपुरा	40		मुहब्बतपुरा	1	मुहब्बतपुरा
44		ग्वारऊ कलां	1	ग्वारऊ कलां	41		ग्वारऊ कलां	1	ग्वारऊ कलां
45		गढी दुधाधारी	1	गढी दुधाधारी	42		गढी दुधाधारी	1	गढी दुधाधारी
46		कैशोंपुर	1	कैशोंपुर	43		कैशोंपुर	1	कैशोंपुर
47		बोनई	1	बोनई	44		बोनई	1	बोनई
48		बरवाना	1	बरवाना	45		बरवाना	1	बरवाना
49		महौ	1	महौ	46		महौ	1	महौ
			2	मल्है				2	मल्है

1	2	3	4	1	2	3	4
			3 हिम्मतपुर				3 हिम्मतपुर
50	गढीधारु	1	गढीधारु	47		गढीधारु	1 गढीधारु
		2	मानमहौ				2 मानमहौ
51	न0 मान	1	न0 मान	48		न0 मान	1 न0 मान
		2	बन्दीपुर				2 बन्दीपुर
52	बघराया	1	बघराया	49		बघराया	1 बघराया
53	पुन्नेर	1	पुन्नेर	50		पुन्नेर	1 पुन्नेर
54	नगला अडू	1	नगला अडू	51		नगला अडू	1 नगला अडू
55	शाहपुर कलां	1	शाहपुर कलां	52		शाहपुर कलां	1 शाहपुर कलां
		2	खोंडारती				2 खोंडारती
56	वाहनपुर	1	वाहनपुर	53		वाहनपुर	1 वाहनपुर
57	न0 केशौं	1	न0 केशौं	54		न0 केशौं	1 न0 केशौं
58	बरौली	1	बरौली	55		बरौली	1 बरौली
59	मौहारी	1	मौहारी	56		मौहारी	1 मौहारी
60	जहाँगीरपुर	1	जहाँगीरपुर	57		जहाँगीरपुर	1 जहाँगीरपुर
		2	न0 तजना				2 न0 तजना
		3	छत्तरपुर				3 छत्तरपुर
61	भदामई	1	भदामई	58		भदामई	1 भदामई
62	कलोरा	1	कलोरा	59		कलोरा	1 कलोरा
63	देवीनगर	1	देवीनगर	60		देवीनगर	1 देवीनगर
64	हाजीपुर	1	हाजीपुर	61		हाजीपुर	1 हाजीपुर
65	रड़ावली	1	रड़ावली	62		रड़ावली	1 रड़ावली

1	2	3	4	1	2	3	4
66		पवलोई	1 पवलोई	63		पवलोई	1 पवलोई
			2 मदनगढी				2 मदनगढी
67		धौरपुर	1 धौरपुर	64		धौरपुर	1 धौरपुर
			2 सराय अमर सिंह				2 सराय अमर सिंह
68		पहाडपुर	1 पहाडपुर	65		पहाडपुर	1 पहाडपुर
69		न0 खरग	1 न0 खरग	66		न0 खरग	1 न0 खरग
70		भोगांव न0 जायस	1 भोगांव न0 जायस	67		भोगांव न0 जायस	1 भोगांव न0 जायस
			2 मितनपुर				2 मितनपुर
71		शेखूपुर मदन	1 शेखूपुर मदन	68		शेखूपुर मदन	1 शेखूपुर मदन
			2 वरामई				2 वरामई
			3 गढी सिंघा				3 गढी सिंघा
72		दादनपुर ढकपुरा	1 दादनपुर ढकपुरा			नगर विकास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, की अधिसूचना संख्या 1122/नौ-2-19-66सा-14, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा ग्राम पंचायत दादनपुर ढकपुरा नगर पालिका, हाथरस में सम्मिलित ।	
			2 रमनपुर मड़ईया			राजस्व ग्राम रमनपुर की मड़ईया को भौगोलिक स्थिति के अनुसार ग्राम पंचायत नगला अलिया में सम्मिलित किया गया है ।	
73		सोखना	1 सोखना			नगर विकास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, की अधिसूचना संख्या 1122/नौ-2-19-66सा-14, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा ग्राम पंचायत सोखना नगर पालिका, हाथरस में सम्मिलित ।	
74		रतनगढी	1 रतनगढी	69		रतनगढी	1 रतनगढी
							2 सोखना (गैर आबाद)
75		रमनगला	1 रमनगला	70		रमनगला	1 रमनगला

1	2	3	4	1	2	3	4
76		हाथरस देहात	1 हाथरस देहात			नगर विकास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, की अधिसूचना संख्या 1122/नौ-2-19-66सा-14, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा ग्राम पंचायत हाथरस देहात नगर पालिका, हाथरस में सम्मिलित ।	
77		तिपरस	1 तिपरस	71		तिपरस	1 तिपरस
			2 गढी गिरधरा				2 गढी गिरधरा
			3 गढी जैनी				3 गढी जैनी
							4 हाथरस देहात (गैर आबाद)
78		न0 अलिया	1 न0 अलिया	72		न0 अलिया	1 न0 अलिया
							2 रमनपुर मड़ईया
							3 दादनपुर ढकपुरा (गैर आबाद)
79	मुरसान	नगला गजुआ	1 नगला गजुआ	73	मुरसान	नगला गजुआ	1 नगला गजुआ
			2 गोपालपुर				2 गोपालपुर
80		गुमानपुर	1 गुमानपुर	74		गुमानपुर	1 गुमानपुर
81		मोहनपुर	1 मोहनपुर	75		मोहनपुर	1 मोहनपुर
82		खेडा बरामई	1 खेडा बरामई	76		खेडा बरामई	1 खेडा बरामई
			2 न0 नन्दराम				2 न0 नन्दराम
83		नगला नन्दू	1 नगला नन्दू	77		नगला नन्दू	1 नगला नन्दू
84		गारवगढी	1 गारवगढी	78		गारवगढी	1 गारवगढी
			2 भरतुआ				2 भरतुआ
85		विसुनदास	1 विसुनदास	79		विसुनदास	1 विसुनदास
			2 दर्शना मनु फुर्का				2 दर्शना मनु फुर्का
			3 न0 हीरा सिंह				3 न0 हीरा सिंह

1	2	3	4	1	2	3	4
86		कथरिया	1 कथरिया	80		कथरिया	1 कथरिया
			2 ककरावली				2 ककरावली
87		नगला दया	1 नगला दया	81		नगला दया	1 नगला दया
88		नगला बनारसी प्रह्लाद	1 नगला बनारसी प्रह्लाद	82		नगला बनारसी प्रह्लाद	1 नगला बनारसी प्रह्लाद
89		धातरा खुर्द	1 धातरा खुर्द	83		धातरा खुर्द	1 धातरा खुर्द
			2 धातुरा कला				2 धातुरा कला
90		बिसरात	1 बिसरात	84		बिसरात	1 बिसरात
			2 नगला मनी				2 नगला मनी
91		टुकसान	1 टुकसान	85		टुकसान	1 टुकसान
92		संगीला नं0 बरी	1 संगीला नं0 बरी	86		संगीला नं0 बरी	1 संगीला नं0 बरी
			2 मूंगसा				2 मूंगसा
			3 बीछिया				3 बीछिया
93		भोजपुर खेतसी	1 भोजपुर खेतसी	87		भोजपुर खेतसी	1 भोजपुर खेतसी
94		हतीसा भगवन्तपुर	1 हतीसा भगवन्तपुर	88		हतीसा	1 हतीसा
95		लहरा	1 लहरा	89		लहरा	1 लहरा
			2 न0 आम				2 न0 आम
							3 गढी तमना (गैर आबाद)
							4 चिन्तापुर (गैर आबाद)
							4 जोगिया (गैर आबाद)
96		अहवरनपुर	1 अहवरनपुर	90		अहवरनपुर	1 अहवरनपुर
97		जोगिया	1 जोगिया			नगर विकास अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन, की अधिसूचना संख्या 1122/नौ-2-19-66सा-14, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा ग्राम पंचायत जोगिया नगर पालिका, हाथरस में सम्मिलित।	
98		बाद न0 अठवरिया	1 बाद न0 अठवरिया	91		बाद न0 अठवरिया	1 बाद न0 अठवरिया
			2 परताप				2 परताप
99		बुधू न0 हेमराज	1 बुधू न0 हेमराज	92		बुधू न0 हेमराज	1 बुधू न0 हेमराज

1	2	3	4	1	2	3	4
100		गढी तमना	1 गढी तमना			नगर विकास अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या 1122/नौ-2-19-66सा-14, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा ग्राम पंचायत गढी तमना व राजस्व ग्राम चिन्तापुर नगर पालिका, हाथरस में सम्मिलित।	
			2 चिन्तापुर				
101		फुसकरा	1 फुसकरा	93		फुसकरा	1 फुसकरा
			2 फरसौटी				2 फरसौटी
			3 फोजिया				3 फोजिया
102		ताजपुर	1 ताजपुर	94		ताजपुर	1 ताजपुर
103		बगुली कमालपुर	1 बगुली कमालपुर	95		बगुली कमालपुर	1 बगुली कमालपुर
			2 डेंगरा				2 डेंगरा
104		रायक	1 रायक	96		रायक	1 रायक
105		मथू बिचपुरी	1 मथू बिचपुरी	97		मथू बिचपुरी	1 मथू बिचपुरी
			2 बिचपुरी				2 बिचपुरी
106		नवीपुर	1 नवीपुर	98		नवीपुर	1 नवीपुर
			2 महिमा				2 महिमा
			3 छोटुआ				3 छोटुआ
107		नगला गोपी	1 नगला गोपी	99		नगला गोपी	1 नगला गोपी
			2 सिरुआ				2 सिरुआ
108		बर्धवारी	1 बर्धवारी	100		बर्धवारी	1 बर्धवारी
			2 चौकडा				2 चौकडा
			3 दर्शना सा0 गुवारी				3 दर्शना सा0 गुवारी
109		उदयभान भकरोई	1 उदयभान भकरोई	101		उदयभान भकरोई	1 उदयभान भकरोई
			2 कंचना				2 कंचना
110		खरगू	1 खरगू	102		खरगू	1 खरगू
			2 बैलवारी				2 बैलवारी
111		सुधिया	1 सुधिया	103		सुधिया	1 सुधिया
			2 भूडरी				2 भूडरी
112		जैतपुर	1 जैतपुर	104		जैतपुर	1 जैतपुर
			2 शीतला मेवा				2 शीतला मेवा

1	2	3	4	1	2	3	4
113		टिमरली	1 टिमरली	105		टिमरली	1 टिमरली
			2 न0 शीशम				2 न0 शीशम
114		करील	1 करील	106		करील	1 करील
115		जटोई	1 जटोई	107		जटोई	1 जटोई
116		कोटा	1 कोटा	108		कोटा	1 कोटा
			2 रंगपुरा				2 रंगपुरा
117		पदू	1 पदू	109		पदू	1 पदू
118		कोरना चमरूआ	1 कोरना चमरूआ	110		कोरना चमरूआ	1 कोरना चमरूआ
			2 रतमानगढी				2 रतमानगढी
119		सुसावली	1 सुसावली	111		सुसावली	1 सुसावली
			2 न0 बिहारी				2 न0 बिहारी
120		महामौनी	1 महामौनी	112		महामौनी	1 महामौनी
121		रामगढ	1 रामगढ	113		रामगढ	1 रामगढ
			2 बैरीसला				2 बैरीसला
122		भांकरी न0 भोजा	1 भांकरी न0 भोजा	114		भांकरी न0 भोजा	1 भांकरी न0 भोजा
			2 ढकपुरा				2 ढकपुरा
			3 रामराय				3 रामराय
			4 नगला सोरों				4 नगला सोरों
123		जिन्द पट्टी बिसाना	1 जिन्द पट्टी बिसाना	115		जिन्द पट्टी बिसाना	1 जिन्द पट्टी बिसाना
			2 खेडिया आशा				2 खेडिया आशा
124		ग0प0 बिसाना	1 ग0प0 बिसाना	116		ग0प0 बिसाना	1 ग0प0 बिसाना
125		महमूदपुर जाटान	1 महमूदपुर जाटान	117		महमूदपुर जाटान	1 महमूदपुर जाटान
126		गोलनगर	1 गोलनगर	118		गोलनगर	1 गोलनगर
127		खेरिया डहर	1 खेरिया डहर	119		खेरिया डहर	1 खेरिया डहर
			2 लखपुरा				2 लखपुरा
			3 हीरागढी				3 हीरागढी

1	2	3	4	1	2	3	4
128		कछपुरा	1 कछपुरा	120		कछपुरा	1 कछपुरा
			2 न0 ओझा				2 न0 ओझा
			3 न0 बिहारी				3 न0 बिहारी
129		झीगुरा	1 झीगुरा	121		झीगुरा	1 झीगुरा
130		सन्टीकरा	1 सन्टीकरा	122		सन्टीकरा	1 सन्टीकरा
			2 गढी कछवाया एवं हीरागढी				2 गढी कछवाया एवं हीरागढी
131		दयालपुर	1 दयालपुर	123		दयालपुर	1 दयालपुर
			2 केशरगढी				2 केशरगढी
132		दारुदा	1 दारुदा	124		दारुदा	1 दारुदा
			2 बंका				2 बंका
			3 हडैला				3 हडैला
			4 पीपलगढी				4 पीपलगढी
133		न0 बाबू	1 न0 बाबू	125		न0 बाबू	1 न0 बाबू
			2 सोंगर				2 सोंगर
			3 खोकिया				3 खोकिया
			4 अमरपुर				4 अमरपुर
			5 चमरपुरा				5 चमरपुरा
			6 चमरपट्टी				6 चमरपट्टी
134		पटाखास	1 पटाखास	126		पटाखास	1 पटाखास
135		मगटई	1 मगटई	127		मगटई	1 मगटई
			2 आराजीसीर केहरी सिंह				2 आराजीसीर केहरी सिंह
136		अहरई	1 अहरई	128		अहरई	1 अहरई
			2 लालपुर				2 लालपुर
137		पैठगांव	1 पैठगांव	129		पैठगांव	1 पैठगांव
138		सैनपुर	1 सैनपुर	130		सैनपुर	1 सैनपुर
139		गोजिया	1 गोजिया	131		गोजिया	1 गोजिया
			2 तिहईया नं0 कलूपुरा				2 तिहईया नं0 कलूपुरा
			3 नगला गंगा				3 नगला गंगा

1	2	3	4	1	2	3	4
			4 जुगरिया				4 जुगरिया
140		सियमल	1 सियमल	132		सियमल	1 सियमल
			2 पटैनी				2 पटैनी
			3 आ0 सियमल				3 आ0 सियमल
141		सुरतिया	1 सुरतिया	133		सुरतिया	1 सुरतिया
			2 गोपालपुर ता0 पटैनी				2 गोपालपुर ता0 पटैनी
			3 मुगरिया				3 मुगरिया
			4 सुखा				4 सुखा
142		खुटीपुरी	1 खुटीपुरी	134		खुटीपुरी	1 खुटीपुरी
143		गुवारी	1 गुवारी	135		गुवारी	1 गुवारी
144		कुरावली	1 कुरावली	136		कुरावली	1 कुरावली
145		लुहेटा खुर्द कला	1 लुहेटा खुर्द कला	137		लुहेटा खुर्द कला	1 लुहेटा खुर्द कला
146		खुजरिया	1 खुजरिया	138		खुजरिया	1 खुजरिया
147		न0 अमरा	1 न0 अमरा	139		न0 अमरा	1 न0 अमरा
			2 सरकोरिया				2 सरकोरिया
			3 नगला अन्ता				3 नगला अन्ता
148		रोहई	1 रोहई	140		रोहई	1 रोहई
			2 न0 मोतीराम				2 न0 मोतीराम
149		बामौली	1 बामौली	141		बामौली	1 बामौली
			2 गदाई				2 गदाई
150		चांचपुर भटेला	1 चांचपुर भटेला	142		चांचपुर भटेला	1 चांचपुर भटेला
151		अर्जुनपुर	1 अर्जुनपुर	143		अर्जुनपुर	1 अर्जुनपुर
152		बमनई	1 बमनई	144		बमनई	1 बमनई
			2 दरगवा				2 दरगवा
			3 नगला बंदी				3 नगला बंदी
			4 झुझरिया				4 झुझरिया
153		कपूरा	1 कपूरा	145		कपूरा	1 कपूरा
154		चितावर	1 चितावर	146		चितावर	1 चितावर

1	2	3	4	1	2	3	4
155		नहरोई	1 नहरोई			नगर विकास अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या 1122/नौ-2-19-66सा-14, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा ग्राम पंचायत नहरोई नगर पालिका, हाथरस में सम्मिलित।	
156		अनीगढी	1 अनीगढी	147		अनीगढी	1 अनीगढी
			2 न0 दना				2 न0 दना
157		केवलगढी	1 केवलगढी	148		केवलगढी	1 केवलगढी
158		मीतई	1 मीतई			नगर विकास अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या 1122/नौ-2-19-66सा-14, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा ग्राम पंचायत मीतई नगर पालिका, हाथरस में सम्मिलित।	
			2 पट्टी सामन्त			राजस्व ग्राम पट्टी सामन्त को भौगोलिक स्थिति के अनुसार नजदीकी ग्राम पंचायत चन्दपा में सम्मिलित किया गया है।	
159		महमूदपुर ब्राह्मणान	1 महमूदपुर ब्राह्मणान	149		महमूदपुर ब्राह्मणान	1 महमूदपुर ब्राह्मणान
160		न0 लच्छी	1 न0 लच्छी	150		न0 लच्छी	1 न0 लच्छी
161		कुंवरपुर न0 बांस	1 कुंवरपुर न0 बांस	151		कुंवरपुर न0 बांस	1 कुंवरपुर न0 बांस
							2 नहरोई (गैर आबाद)
162		चन्दपा	1 चन्दपा	152		चन्दपा	1 चन्दपा
							2 पट्टी सामन्त
							3 मीतई (गैर आबाद)
163		खेडा पारसौली	1 खेडा पारसौली	153		खेडा पारसौली	1 खेडा पारसौली
164	सासनी	रूहेरी	1 रूहेरी	154	सासनी	रूहेरी	1 रूहेरी
			2 श्रीनगर				2 श्रीनगर
			3 न0 अलिया				3 न0 अलिया
							4 न0 उम्मेद
							5 दयानतपुर (गैर आबाद)
165		दरकौली	1 दरकौली	155		दरकौली	1 दरकौली
166		दरकौला	1 दरकौला	156		दरकौला	1 दरकौला

1	2	3	4	1	2	3	4
167		महमूदपुर बरसै	1 महमूदपुर बरसै	157		महमूदपुर बरसै	1 महमूदपुर बरसै
168		रघनियों	1 रघनियों	158		रघनियों	1 रघनियों
169		रहना	1 रहना	159		रहना	1 रहना
170		किन्दौली	1 किन्दौली	160		किन्दौली	1 किन्दौली
171		जगीपुर	1 जगीपुर	161		जगीपुर	1 जगीपुर
172		दयानतपुर	1 दयानतपुर			नगर विकास अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या 1122/नौ-2-19-66सा-14, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा ग्राम पंचायत दयानतपुर नगर पालिका, हाथरस में सम्मिलित ।	
			2 न0 उम्मेद			राजस्व ग्राम न0 उम्मेद को भौगोलिक स्थिति के अनुसार नजदीकी ग्राम पंचायत रूहेरी में सम्मिलित किया गया है ।	
173		तिलौठी	1 तिलौठी	162		तिलौठी	1 तिलौठी
			2 न0 विजया				2 न0 विजया
174		बिजाहरी	1 बिजाहरी	163		बिजाहरी	1 बिजाहरी
175		खेडिया	1 खेडिया	164		खेडिया	1 खेडिया
176		लुटसान	1 लुटसान	165		लुटसान	1 लुटसान
177		अजरोई	1 अजरोई	166		अजरोई	1 अजरोई
178		दरियापुर	1 दरियापुर	167		दरियापुर	1 दरियापुर
			2 जोगीपुरा				2 जोगीपुरा
179		भोजगढी	1 भोजगढी	168		भोजगढी	1 भोजगढी
180		सिताहरी	1 सिताहरी	169		सिताहरी	1 सिताहरी
181		हडौली	1 हडौली	170		हडौली	1 हडौली
182		देदामई	1 देदामई	171		देदामई	1 देदामई
			2 नहलोई				2 नहलोई
183		विधैपुर	1 विधैपुर	172		विधैपुर	1 विधैपुर
184		सॉदलपुर	1 सॉदलपुर	173		सॉदलपुर	1 सॉदलपुर
			2 न0 भीका				2 न0 भीका
			3 न0 अजमेरी				3 न0 अजमेरी
185		जसराना	1 जसराना	174		जसराना	1 जसराना

1	2	3	4	1	2	3	4
186		सिर्घर	1 सिर्घर	175		सिर्घर	1 सिर्घर
187		सुसायत खुर्द	1 सुसायत खुर्द	176		सुसायत खुर्द	1 सुसायत खुर्द
			2 हासिमपुर				2 हासिमपुर
188		शहजपुरा	1 शहजपुरा	177		शहजपुरा	1 शहजपुरा
189		सुसायत कलां	1 सुसायत कलां	178		सुसायत कलां	1 सुसायत कलां
190		रुदायन	1 रुदायन	179		रुदायन	1 रुदायन
191		न0 गढू	1 न0 गढू	180		न0 गढू	1 न0 गढू
			2 दिनावली				2 दिनावली
192		ल्होर्ा	1 ल्होर्ा	181		ल्होर्ा	1 ल्होर्ा
193		विलखौरा कलां	1 विलखौरा कलां	182		विलखौरा कलां	1 विलखौरा कलां
194		जिरौली	1 जिरौली	183		जिरौली	1 जिरौली
195		न0 भूरा	1 न0 भूरा	184		न0 भूरा	1 न0 भूरा
			2 बिलखौरा खुर्द				2 बिलखौरा खुर्द
196		जरैया गदाखेडा	1 जरैया गदाखेडा	185		जरैया गदाखेडा	1 जरैया गदाखेडा
			2 न0 भम्बूजाट				2 न0 भम्बूजाट
197		लढौता	1 लढौता	186		लढौता	1 लढौता
198		समामई रुहल	1 समामई रुहल	187		समामई रुहल	1 समामई रुहल
199		सलेमपुर	1 सलेमपुर	188		सलेमपुर	1 सलेमपुर
200		बहटा	1 बहटा	189		बहटा	1 बहटा
201		टौड	1 टौड	190		टौड	1 टौड
202		अमोखरी	1 अमोखरी	191		अमोखरी	1 अमोखरी
			2 धतरोई				2 धतरोई
203		ढूलई	1 ढूलई	192		ढूलई	1 ढूलई
			2 हीरापुर				2 हीरापुर
204		शेखूपुर अजीत	1 शेखूपुर अजीत	193		शेखूपुर अजीत	1 शेखूपुर अजीत
205		छौंक	1 छौंक	194		छौंक	1 छौंक
206		ततारपुर	1 ततारपुर	195		ततारपुर	1 ततारपुर

1	2	3		4	1	2	3		4
207		अखईपुर	1	अखईपुर	196		अखईपुर	1	अखईपुर
			2	खानपुर				2	खानपुर
208		रामपुर	1	रामपुर	197		रामपुर	1	रामपुर
209		औंदुआ	1	औंदुआ	198		औंदुआ	1	औंदुआ
			2	मिरगामई				2	मिरगामई
210		फरौली	1	फरौली	199		फरौली	1	फरौली
211		अजीतपुर	1	अजीतपुर	200		अजीतपुर	1	अजीतपुर
			2	भोपतपुर				2	भोपतपुर
212		अलीपुर	1	अलीपुर	201		अलीपुर	1	अलीपुर
213		शाहपुर खुर्द	1	शाहपुर खुर्द	202		शाहपुर खुर्द	1	शाहपुर खुर्द
214		खोरना	1	खोरना	203		खोरना	1	खोरना
215		अमरपुर घना	1	अमरपुर घना	204		अमरपुर घना	1	अमरपुर घना
216		गौहाना	1	गौहाना	205		गौहाना	1	गौहाना
217		न0 सिंह	1	न0 सिंह	206		न0 सिंह	1	न0 सिंह
			2	पट्टी फतेली				2	पट्टी फतेली
218		सासनी देहात	1	सासनी देहात	207		सासनी देहात	1	सासनी देहात
			2	बाग सासनी				2	बाग सासनी
			3	सीर सासनी				3	सीर सासनी
219		खेडा फिरोजपुर	1	खेडा फिरोजपुर	208		खेडा फिरोजपुर	1	खेडा फिरोजपुर
			2	रामनगर				2	रामनगर
220		बिर्वा	1	बिर्वा	209		बिर्वा	1	बिर्वा
221		नगला केहरिया	1	नगला केहरिया	210		नगला केहरिया	1	नगला केहरिया
222		गोपालपुर	1	गोपालपुर	211		गोपालपुर	1	गोपालपुर
			2	न0 सेवा				2	न0 सेवा
223		न0 फतेला	1	न0 फतेला	212		न0 फतेला	1	न0 फतेला
			2	न0 जहरू				2	न0 जहरू
224		नदौना न0 लच्छी	1	नदौना न0 लच्छी	213		नदौना न0 लच्छी	1	नदौना न0 लच्छी
225		ततारपुर मोहरिया	1	ततारपुर मोहरिया	214		ततारपुर मोहरिया	1	ततारपुर मोहरिया
			2	द्वारिकापुर				2	द्वारिकापुर
			3	नगला रूर्द				3	नगला रूर्द

1	2	3	4	1	2	3	4
226		खिटौली कटैलिया	1 खिटौली कटैलिया	215		खिटौली कटैलिया	1 खिटौली कटैलिया
227		सीकुर अकबरपुर	1 सीकुर अकबरपुर	216		सीकुर अकबरपुर	1 सीकुर अकबरपुर
228		ममौता कलाखुर्द	1 ममौता कलाखुर्द	217		ममौता कलाखुर्द	1 ममौता कलाखुर्द
229		बसई काजी	1 बसई काजी	218		बसई काजी	1 बसई काजी
230		न0 लोका	1 न0 लोका	219		न0 लोका	1 न0 लोका
			2 नौजरपुर				2 नौजरपुर
231		बांधनू शिकोहाबाद	1 बांधनू शिकोहाबाद	220		बांधनू शिकोहाबाद	1 बांधनू शिकोहाबाद
232		जलालपुर	1 जलालपुर	221		जलालपुर	1 जलालपुर
			2 मोमनाबाद				2 मोमनाबाद
			3 जनमासी				3 जनमासी
233		निनामई	1 निनामई	222		निनामई	1 निनामई
234		चन्दैया	1 चन्दैया	223		चन्दैया	1 चन्दैया
			2 न0 कासी				2 न0 कासी
235		ऊतरा	1 ऊतरा	224		ऊतरा	1 ऊतरा
236		कौमरी	1 कौमरी	225		कौमरी	1 कौमरी
237		ऊसवा	1 ऊसवा	226		ऊसवा	1 ऊसवा
238		टिकारी	1 टिकारी	227		टिकारी	1 टिकारी
239		छोडा गडौआ	1 छोडा गडौआ	228		छोडा गडौआ	1 छोडा गडौआ
240		हर्दपुर	1 हर्दपुर	229		हर्दपुर	1 हर्दपुर
241		मौहरिया	1 मौहरिया	230		मौहरिया	1 मौहरिया
			2 अलीपुर				2 अलीपुर
242		सठिया	1 सठिया	231		सठिया	1 सठिया
243		बसगोई	1 बसगोई	232		बसगोई	1 बसगोई
244		गढी नन्दराम	1 गढी नन्दराम	233		गढी नन्दराम	1 गढी नन्दराम
			2 नौपुरा				2 नौपुरा
245		गारवगढी	1 गारवगढी	234		गारवगढी	1 गारवगढी
			2 नगला सामन्त				2 नगला सामन्त
246		सुमरित गढी	1 सुमरित गढी	235		सुमरित गढी	1 सुमरित गढी

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 4/173/2015-4/91 (हाथरस)-2014, दिनांक 27 जनवरी, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,
किंजल सिंह,
निदेशक,
पंचायती राज, उ0 प्र0।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 444 राजपत्र-2020-(977)-599 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 30 सा0 पंचायती राज-2020-(978)-132 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।